



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019 (MAGHA 17, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

शुद्धि पत्र

दिनांक 6 फरवरी, 2019

संख्या 22/जीएसटी-2.— हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 105/जीएसटी-2, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, में, मूल हिन्दी पाठ में, पृष्ठ 4188 में, पंक्ति 12 में, "सूची 32" के स्थान पर, "सूची 34" पढ़ी जाए।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Corrigendum

The 6th February, 2019

No. 22/GST-2.— In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 105/GST-2, dated the 31st December, 2018, in page 4189, in line 5, for "List 32", read "List 34".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

8549—C.S.—H.G.P., Pkl.